

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट- जनपद शाहजहांपुर दिनांक 30.07.2022

थाना कटरा पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी

वाहनों का बीमा करने के नाम पर धोखधडी कर रूपयों की ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार,

वाहनों का करता था फर्जी बीमा, 88 कूटरचित बीमा के कागजात, लैपटॉप प्रिन्टर बरामद।

वादी संजीव पुत्र रघुवर दयाल नि० मो० बजरिया थाना कटरा शाहजहाँपुर द्वारा थाना कटरा पर फर्जी बीमा किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। सूचना पर तत्काल थाना कटरा पर मु०अ०सं० 315/22 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जांच कर प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिये गये।

जिसके क्रम में थाना थाना कटरा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.07.2022 की रात्रि को तिलहर क्षेत्र में स्थित हंस आटो मोबाइल एजेन्सी से अभियुक्त पंकज गुप्ता पुत्र स्व० दामोदर दास निवासी मो० कुमरगंज कस्बा व थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 88 फर्जी कूटरचित बीमा चोला मंडलम एम०एस० बीमा कम्पनी की बीमा प्रतियां मय लैपटॉप व प्रिन्टर के बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा० न्यायालय पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. पंकज गुप्ता पुत्र स्व० दामोदर दास निवासी मो० कुमरगंज कस्बा व थाना तिलहर जिला शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक लेपटॉप DELL कम्पनी,
2. एक प्रिन्टर BROTHER कम्पनी,
3. 88 फर्जी बीमा की प्रतियाँ (चोला मंडलम एम०एस० बीमा कम्पनी)

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी हंस आटो मोबाइल एजेन्सी कस्बा तिलहर में है। मैं वाहन बेचते समय बीमे के पूरे पैसे वाहन खरीदने वाले से ले लेता हूँ और किसी पुरानी बीमा पालिसी में लैपटॉप से एडिट कर जाली बीमा पॉलिसी तैयार कर उसी जाली पॉलिसी से वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। एडिट करते समय मैं केवल वाहन स्वामी का नाम पता व वाहन का इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर एडिट करता हूँ। यदि कोई ग्राहक इसकी शिकायत करता है। तो मैं उसका जाली बीमा लेकर उसे ओरिजनल कराकर उसे दे देता हूँ। एक वाहन की बीमा धनराशि 4000 रूपये से 7000 रूपये तक ग्राहक से ले लेता हूँ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 315/2022 धारा 420/467/468/471 IPC थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवीन सोलंकी थाना कटरा जनपद शाह0
2. उ0नि0 श्री रतिराम सिंह थाना कटरा जनपद शाह0
3. उ0नि0 श्री अनित कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
4. हे0का0 400 अजय राणा थाना कटरा जनपद शाह0
5. का0 2106 पवन गुप्ता थाना कटरा जनपद शाह0